



PNBHFL/SE/EQ/FY2026-27/52
August 05, 2026

The BSE Limited
Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 540173

The National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
“Exchange Plaza”
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
Symbol: PNBHOUSING

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Publication of Financial Results for the quarter ended June 30, 2026

Ref: Our letter Ref: PNBHFL/SE/EQ/FY2026-27/48 dated August 04, 2026

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, we have enclosed copies of newspaper publication in Business Standard (English and Hindi edition) regarding Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2026.

This copy of above publication is also placed on the website of the Company www.pnbhousing.com.

Kindly take the above intimation and documents on record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **PNB Housing Finance Limited**

Veena G Kamath
Company Secretary

Encl: As above



MUTUAL FUND

MAHINDRA MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Corporate Identity Number: U65900MH2013PTC244758

Registered Office / Corporate Office: Unit No. 204, 2nd Floor, Amiti Building, Piramal Agastya Corporate Park, LBS Road, Kamani Junction, Kurla (W), Mumbai - 400070.

Tel: 1800 4196244; website: www.mahindramanulife.com; email id: mfinvestors@mahindramanulife.com

NOTICE NO. 32/2026

Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') under Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund

Notice is hereby given that, in accordance with the Dividend Distribution Policy, as approved by Mahindra Manulife Trustee Private Limited, the Trustee to Mahindra Manulife Mutual Fund ("the Fund"), the Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") has been declared under Monthly IDCW Option(s) of Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund, an open ended hybrid scheme investing predominantly in equity and equity related instruments ("the Scheme"), as per the details given below:

Plan(s)/Option(s)	Quantum of IDCW # (Rs. per unit)	Record Date*	Face Value (Rs. per unit)	NAV as on August 03, 2026 (Rs. per unit)
Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.18	August 07, 2026	10	18.2377
Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.18		10	21.3766

*As reduced by the amount of applicable statutory levy. Distribution of the above IDCW is subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on the distributable surplus available on the Record Date.

*If in any case the Record Date falls on a non-business day, the immediately following business day shall be deemed to be the Record Date.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option(s) of the Scheme/Plan(s) would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

All Unit holders / Beneficial Owners under the IDCW Option(s) of the abovementioned Scheme / Plan(s) whose names appear in the records of the Registrar, Computer Age Management Services Ltd. / Statement of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as applicable, as at the close of the business hours on the Record Date shall be eligible to receive the IDCW.

With regard to Unit holders under the IDCW Option(s) of the abovementioned Scheme/ Plan(s), who have opted for IDCW Reinvestment facility, the IDCW due will be reinvested by allotting units for the IDCW amount (on the next Business Day after the Record Date) at a price based on the prevailing ex-IDCW NAV per unit on the Record Date.

For Mahindra Manulife Investment Management Private Limited

Place: Mumbai
Date: August 04, 2026

Sd/-
Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



Ghar Ki Baat

Regd. Office: 9th Floor Antriksh Bhawan, 22, K. G. Marg, New Delhi-110001

Phone: 011-66030500, Email: investor.services@pnbhousing.com, Website: www.pnbhousing.com

CIN : L65922DL1988PLCO33856

EXTRACT OF CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

EXTRACT OF CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

(₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 30.06.2026 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter Ended 30-06-2025 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	2,263.44	8,504.52	2,076.11
2.	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	718.44	2,970.61	687.92
3.	Net Profit for the period Before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	718.44	2,970.61	687.92
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	557.34	2,291.24	533.50
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	564.19	2,437.75	620.29
6.	Paid Up Equity Share Capital	260.59	260.55	260.13
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserves)	19532.91	18,958.58	17,237.83
8.	Securities Premium Account	6,507.49	6,504.88	6,479.71
9.	Net Worth	19793.50	19,219.13	17,497.96
10.	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	73699.48	71,198.65	64,843.72
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12.	Debt Equity Ratio	3.72	3.70	3.71
13.	Earnings per Share (of ₹10/- each)*			
	(1) Basic (₹)	21.39	88.01	20.52
	(2) Diluted (₹)	21.33	87.80	20.45
14.	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
15.	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA
16.	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17.	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

*EPS for the quarters are not annualised.

The key data relating to standalone interim financial results of PNB Housing Finance Limited is as under:

(₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 30.06.2026 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter Ended 30-06-2025 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	2252.50	8,511.22	2,063.88
2.	Profit Before Tax	714.59	3,003.80	685.53
3.	Tax Expense	160.09	675.92	153.80
4.	Net Profit After Tax	554.50	2,327.88	531.73
5.	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive Income after tax)	561.71	2,473.85	618.36

NOTES:

1. The above-mentioned interim results for the quarter ended June 30, 2026 are reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board and subsequently approved by the Board of Directors at it's meeting held on August 04, 2026.

2. During the quarter ended June 30, 2026, the Company has allotted 40,345 equity shares of ₹ 10 each pursuant to exercise of stock options / restricted stock units by employees.

3. The above is an extract of the detailed format of interim financial results for quarter ended June 30, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of interim standalone and interim consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2026 are available on BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and the website of the Company (www.pnbhousing.com) which can also be accessed by scanning the QR code provided below.

4. For other line items referred in Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to Stock Exchange(s) and available on BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and the website of the Company (www.pnbhousing.com).

5. The Company had participated in the Saksham Niveshak initiative launched by the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF Authority), Ministry of Corporate Affairs. Shareholders are requested to update their KYC details, including PAN, address, bank details, and nomination, by contacting their respective Depository Participants (DPs) at the earliest.

6. Shareholders are requested to claim their unclaimed dividend, if any by writing to Company at its Registered office or email at investor.services@pnbhousing.com. Dividends if not encashed for a consecutive period of seven (7) years and lying with the Company in unpaid dividend accounts, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF").

7. Deposit holders are requested to claim their unpaid/ unclaimed deposits & interest thereon, if any by writing to Company at its Registered office or email at investor.services@pnbhousing.com. Unclaimed Deposits & interest thereon if not encashed for a consecutive period of seven (7) years and lying with the Company, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF").

For and on behalf of the Board of Directors



Ajai Kumar Shukla
Managing Director & CEO
DIN: 11358498

Date : August 04, 2026
Place : Gurugram

WE ACCEPT PUBLIC DEPOSITS AT ATTRACTIVE RATES OF INTEREST | CALL : 1800-120-8800 | Website : www.pnbhousing.com



PTC India

Extract of unaudited Standalone/ Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June, 2026

(Figures in ₹ Lakhs, unless otherwise indicated)

Particulars	Standalone			
	Quarter ended 30.06.2026	Quarter ended 31.03.2026	Quarter ended 30.06.2025	Year ended 31.03.2026
	(Un-audited)	Audited (Refer Note No. 4)	(Un-audited)	(Audited)
Total revenue from operations	4,67,049	3,77,844	3,86,726	16,25,622
Profit before tax and exceptional items	9,554	10,223	14,096	53,682
Profit before tax and after exceptional items	9,554	10,223	14,096	53,490
Net Profit after tax	7,067	7,574	10,478	39,704
Total Comprehensive Income after tax	7,048	7,588	10,512	39,828
Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10 per share)	29,601	29,601	29,601	29,601
Other equity (excluding Revaluation Reserves)				4,43,383
Net worth				4,72,984
Earning Per Share (Not annualized)				
Basic (amount in ₹)	2.39	2.56	3.54	13.41
Diluted (amount in ₹)	2.39	2.56	3.54	13.41

(Figures in ₹ Lakhs, unless otherwise indicated)

Particulars	Consolidated			
	Quarter ended 30.06.2026	Quarter ended 31.03.2026	Quarter ended 30.06.2025	Year ended 31.03.2026
	(Un-audited)	Audited (Refer Note No. 4)	(Un-audited)	(Audited)
Total revenue from operations	4,77,380	3,89,752	4,00,917	16,77,079
Profit before tax and exceptional items	14,979	16,381	28,728	92,895
Profit before tax and after exceptional items	14,979	16,381	28,728	92,460
Net Profit after tax	11,208	12,127	24,288	71,744
Total Comprehensive Income after tax	11,205	12,147	24,295	71,903
Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10 per share)	29,601	29,601	29,601	29,601
Other equity (excluding Revaluation Reserves)				5,68,476
Net worth				5,98,077
Earning Per Share (Not annualized)				
Basic (amount in ₹)	3.31	3.56	6.59	20.46
Diluted (amount in ₹)	3.31	3.56	6.59	20.46

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended June 30, 2026 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and company's website www.ptcindia.com.

2. The above financial results were reviewed by the Audit Committee, with the management, in its meeting dated August 04, 2026 before submission to the Board for approval and the Board has approved the financial results in its meeting held on the same day i.e. August 04, 2026. These financial results have been reviewed by the Statutory Auditors of the Parent Company i.e PTC India Limited.

3. The Board of Directors of the Company has approved an interim dividend of ₹ 23.00 per equity share of ₹ 10 each for Financial Year 2026-27.

4. Figures of last quarter are balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year.

Place: New Delhi
Date: August 04, 2026

(Dr. Manoj Kumar Jhawar)
Managing Director & CEO

PTC India Limited

((CIN: L40105DL1999PLC099328))

Registered Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066, Tel: 011- 41659500.41595100, 46484200, Fax: 011-41659144, E-mail: info@ptcindia.com, Website: www.ptcindia.com



FORTIS MALAR HOSPITALS LIMITED

(CIN: L85110PB1989PLC045948)

Regd. Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase - VIII, Mohali – 160062
Tel : +0172-4692222 ; Fax No : +91 172 5096002
Website: www.fortismalarhospital.com; Email: secretarial.malar@malarhospitals.in

STATEMENT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED & STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

(₹ in Lakhs except EPS)

Particulars	CONSOLIDATED		
	Quarter Ended June 30, 2026	Quarter Ended June 30, 2025	Year Ended March 31, 2026
	Un-Audited	Un-Audited	Audited
Total Revenue from Operations	0.09	2.05	5.11
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	19.87	428.49	472.60
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	19.87	428.49	472.60
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	15.22	415.27	413.74
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	15.22	415.27	413.74
Paid - Up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	1,875.70	1,875.70	1,875.70
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (as at March 31, 2026)	NA	NA	1,558.95
Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
(a) Basic (after exceptional items)	0.08	2.22	2.21
(b) Diluted (after exceptional items)	0.08	2.22	2.21

STANDALONE

Particulars	Quarter Ended June 30, 2026	Quarter Ended June 30, 2025	Year Ended March 31, 2026
	Un-Audited	Un-Audited	Audited
	Total Revenue from Operations	-	-
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	22.36	430.87	479.12
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	22.36	430.87	479.12
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	17.71	417.65	420.26
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	17.71	417.65	420.26
Paid - Up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	1,875.70	1,875.70	1,875.70
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (as at March 31, 2026)	NA	NA	1,540.97
Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
(a) Basic (after exceptional items)	0.09	2.23	2.24
(b) Diluted (after exceptional items)	0.09	2.23	2.24

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2026 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Results for the Quarter ended on June 30, 2026 are available on the Website of the Stock Exchange viz. www.bseindia.com and that of the company at www.fortismalarhospital.com.

2. The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

3. # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

For and on Behalf of Board of Directors



Sd/-
Bidesh Chandra Paul
Whole-time Director
DIN: 08596135

Place: Gurugram
Date: August 4, 2026

सार्वजनिक सूचना

उपरोक्त माहिती पत्रिकां प्रकाशनात आहेत। मध्यस्थता आणि सूचना अधिकारी, १९९६ की धारा ९ के तहत मध्यस्थता याविका, मान्यताप्राप्ती कोर वरून न्यायालयात के समक्ष ललित है (समक्ष : अतिम कोरवत के)

बीबी वरून न्यायालयात में समायोजन मूल सूचना की अधिकारिक

वाणिज्यिक मध्यस्थता याविका

संख्या ३६६ वर्ष २०२८

आव्हानाएकपल कानूनी निर्णयित

	वाणिज्यिक
बनान	
१. वरून डेटिंग कंणी मूल्य पांडे नीलम कुमारी तिहारी	प्रतिवादीवापन
सेक्टर में	
१. वरून डेटिंग कंणी प्रतिवादी - प्रमन लाल, एम-१२६, २ डुआ निवास, दाहिनी ओर मेहममपुर, उतर मेहममपुर, बीबी दिल्ली ११००८६ ईमेल आईडी - devadrangan2@gmail.com	
२. मूल्य पांडे (पतिवरी वरून डेटिंग कंणी की प्रभावित) पतिवरी - बी/२/१०११, जीएन-०६, आरिफाबाद, सरवर पुरावाह, डीए के सिटी, १००६१४, डेवर नगर, डेवर नगर, वाहकपुर, गीतम नुडन नगर, उतर प्रदेश २०१००९	
३. गीतम नुडन नगर (पतिवरी-कंणी) पतिवरी - बी/२/१०११, जीएन-०६, आरिफाबाद, सरवर पुरावाह, डीए के सिटी, १००६१४, डेवर नगर, डेवर नगर, वाहकपुर, गीतम नुडन नगर, उतर प्रदेश २०१००९	
प्रतिवादीवापन	
आज के जमाने, प्रतिवादीवापन में आदेश निर्माणवा १६-०७-२०२८ द्वारा, प्रभावित (प्रतिवादीवापन) को केवलयस्थ सेवा के मान्यता से सुमयन प्रदान करती की अनुमति प्रदान कर के अनुमति प्रदान है। अनुमतिवा, प्रतिवादी प्रमाण १, २ और ३ को एकराद्वारा पुष्टि किया जाऊ है और उनसे शरा पर पान स्थान के एकराद्वारा पुष्टि किया जाऊ है तथा एकरासे आदेश का पालन करती और एकराद्वारा मान्यता पर मान्यता वरून न्यायालयात की ओर कोरवत के समक्ष १३ अप्रैल, २०२६ की ओर/ या एकराके बाद उतर जी ममाना सेवा करती की सुमयन प्रदान करे न मान्यता वरून न्यायालयात के सुमयन सुप्रीम कोर है, जो या वरून न्यायालयात से या वरून न्यायालयात कोर, जो एकरा वरून न्यायालयात में आदेश कर के आधिकारिकवा है, के मान्यता से एकरावतिका वरून/पेश करती की माणी की जाऊ है।	
कुमयन मान्यता के बिना एकरा एकरा से आता सरवर न्यायालयात से आदेश आदेश द्वारा प्राधिकृत और अनुमतिवत माहिती प्रदान कर के अनुमतिवा के मान्यता से, वरून न्याही करती है, तो आदेश और कानूनी सुमयन प्रदान किया, एकरासे मान्यता की सुमयन प्रदान किया जाऊ है।	
निर्णय आदेश निर्माणवा १०-०७-२०२८ के तल्लिखित में अनुमतिवात।	
दिनांक : ०६-०८-२०२८	
वाणिज्यिक	
आव्हानाएकपल कानूनी निर्णयित	



हैडफिफ बैंक लिमिटेड
We understand your world

एचडीएफबी बैंक लिमिटेड

राखा का पता: हैडफिफ बैंक लिमिटेड, 168 राजपुर रोड, एस्टेले हॉल के सामने, देहवाडून-248 001
Tel.: 18002100018 CIN: L65920MH1994PL000618 www.hdfcbank.com

माग सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के अन्तर्गत

जैसा कि, (माननीय एनसीएलई-मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित साममेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफबी बैंक लिमिटेड के साथ वित्तीय हित हैं। **एचडीएफबी**) वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत **एचडीएफबी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रवर्तन अधिकारों का उपयोग करते हुए अग्रोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नाम सूचना जारी कर जहां नीचे सूचीबद्ध ऋण / उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नाम सूचना / वारिसों में वर्णित शर्तों की वापस लेटाने के लिये कहा था। अग्रोहस्ताक्षरी ने उक्त ऋण / उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों के अंतित जात पते के परिसरों में भी इन सूचनाओं को चिपकाया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां अग्रोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त ऋण / उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों को यदि वे ऐसा चाहें, उक्त प्रतियों को किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान अग्रोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के सिनसिले में एक बार पुनः एतदुद्धारा उक्त ऋण / उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त ऋण / उधारकर्ता द्वारा रूपायित लिखित में, यदि कोई हो, किसी भी अन्य दस्तावेजों के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत कोलोन सी में नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं / अथवा उम्मादी की तिथि को 60 दिनों के भीतर **एचडीएफबी** को भुगतान कर दें। ऋण की देय पुनर्गुणता के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त ऋण / उधारकर्ता के पास निम्नलिखित प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को बन्धक रखा गया है:

ऋण / उधारकर्ता (ओं) / कानूनन वारिस (ओं) / कानूनन प्रतिनिधित (ओं) का ध्यान सरफेसी एवक की धारा 13 की उप-धारा(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तब समय सीमा में प्रतिभूत परिसम्पत्ति को रीडमी (मौबन) कर सकते हैं।

क्र.सं. (ए)	उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों का नाम (बी)	प्रकार (क) का चुनारि हक (डी)	मांग सूचना की तिथि (डी)	प्रतिभूत परिसम्पत्ति / अवल सम्पत्ति का विवरण (ई)
1	श्री दीप सिंह (ऋणी) श्रीमती नीतू सिंह (सह-ऋणी)	16,53,074 / - दिनांक 30.06.2026 तक एवं 01.07.2026 से देय ब्याज	27.07.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग खसरा नं 479 मिन पर मकान, ग्राम सवेडी, महावातपुर, सुरमहाम, परगना रुड़की, हरिद्वार, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित
2	श्री पप्पी नाथ (ऋणी) श्रीमती नीलम (सह-ऋणी)	12,56,497 / - दिनांक 30.06.2026 तक एवं 01.07.2026 से देय ब्याज	27.07.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग प्लाट नं 81 पर मकान, खसरा 496 म, कोलीनी मंगलमूर्ति फेस 2, ग्राम जमालपुर, परगना जालापुर, हरिद्वार, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित
3	श्री जबर सिंह (ऋणी) श्रीमती सर्वेश देवी (सह-ऋणी)	6,41,614 / - दिनांक 30.06.2026 तक एवं 01.07.2026 से देय ब्याज	27.07.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग खसरा नं 212 मिन पर मकान, साइट नीडडा, काशीपुर, खसरा नीडडा नगर, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित
4	श्री मयना प्रभाव (ऋणी) श्रीमती लता गौर (सह-ऋणी)	10,28,296 / - दिनांक 30.06.2026 तक एवं 01.07.2026 से देय ब्याज	27.07.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग खसरा नं 28 मिन पर प्लाट, ग्राम मोदी पोखरा गंजे सिंह, परगना माबर छ, तहसील हल्द्वानी नैनीताल, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित

* भुगतान और / वा वसूली की तिथि तब तक देय से ब्याज, आकस्मिक ब्याज, लागत, शुल्क सहित। यदि, उक्त ऋणकर्ता **एचडीएफबी** को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योग्य निम्न के अंतर्गत **एचडीएफबी** लाताएं एवं वारिसों के संदर्भ में उक्त ऋण / उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर ऊपर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों / अवल सम्पत्तियों के प्रति आगे की कार्यवाही करेंगे।

इस अधिनियम के अंतर्गत **एचडीएफबी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋण / उधारकर्ता / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों किसी, प्रष्टा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों / अवल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्राधान्यों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के प्राधान्यों के अंतर्गत दंड एवं / अथवा दंड हो सकता है।

दिनांक: 05.08.2026, स्थान : हरिद्वार / उधम सिंह नगर / नैनीताल

पंजीकृत अध्यक्ष : **एचडीएफबी बैंक** हारा, नैनीताल बत गौर, तोरप पत (सिनेम) मुम्बई-400 013

प्रामाणिक अधिकारी

सार्वजनिक सूचना
सूँकि नीचे उल्लिखित मामला, अर्थात् मध्यस्था एवं सुप्रीम अतिरिचय, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत मध्यस्था याचिका, मानकों बॉन्चे उच्च न्यायालय (पीठ न्यायमूर्ति अमित बोकरे) के समक्ष लौटित है।
मध्यस्था याचिका संख्या 404 के 2026
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ...याचिकाकर्ता बनाम
पांतीकैम ऑफोस्ट
जसवीर सिंह सियान
दलजीत कौर
...प्रतिवादी 1 प्र.ति.
पांतीकैम ऑफोस्ट
पता - बेरमेट 138, न्यायालय इंडस्ट्रियुड एरिया फेज 1, संगम गुड्स द्राफ्टपोर्ट कोर्पोरेशन, नई दिल्ली - 110028।
ईमेल आईडी - polykamofost@gmail.com
2. जसवीर सिंह सियान (स्वामी)
पता - मकान संख्या 30, प्रथम तल, ब्लॉक ए, फ्लोड नगर, तिकर नगर, परमसीटी प्रामसीर स्कूल, तिलक नगर के पास, पश्चिम दिल्ली - 110018।
3. दलजीत कौर
पता - मकान संख्या 30, प्रथम तल, ब्लॉक ए, फ्लोड नगर, तिकर नगर, परमसीटी प्रामसीर स्कूल, तिलक नगर के पास, पश्चिम दिल्ली - 110018
...प्रतिवादी 2 प्र.ति.
आई सूँकि, दिनांक 15-07-2026 के आदेश द्वारा मध्यस्था याचिकाधीन को प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से नोटिस की जागीरी की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 3 को एतद्वारा सूचित किया जाता है तथा निम्नलिखित किया जाता है कि वे उपर्युक्त जारी का संग्रह लें और दिनांक 12 अगस्त, 2026 को मानकों न्यायमूर्ति अमित बोकरे के समक्ष उपर्युक्त मामलों में व्यक्तिगत रूप से अथवा बॉन्चे उच्च न्यायालय के मूल पक्ष (एतद्वारा प्रकट) में प्रेषित करने के पास किसी अधिका के माध्यम से उपस्थित हो/हाजिर हो तथा उसके परमखात जब-जब यह मामला आई न्यायालय के समक्ष सुनावार्थ लाने की सुविधा दिया जाय, तब-तब ही उपस्थित हों।
किसा ध्यान दें कि उपर्युक्त जारी का संग्रह लें तथा उसके बॉन्चे उच्च न्यायालय के निमित्त अतिरिक्त एवं आकारे निर्देश प्राप्त अधिका के माध्यम से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है, तब उपर्युक्त मामलों की सुनावार्थ एवं निर्णय आकारे अतिरिचय में, निम्न किसी अतिरिक्त सूचना के, किया जा सकता है।
यह सूचना दिनांक 15-07-2026 के आदेश के अनुपालन एवं पालनाार्थ जारी की जाती है।
दिनांक: 05.08.2026
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड
याचिकाकर्ता

सिक्वोरिट्राइजेसन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फार्मसिआल एस्टेट्स एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिक्वोरिट्राइ इंस्टीट्यूट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना				
अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (रखते)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए. की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHEHHDW00499118 / HHLHDW00174707 / HLAPHDW0175266 1. लता मालिनी पाठक (सह-उधारकर्ता), स्वर्गीय देव राज पाठक की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी) 2. मनबर्दु विजय पाठक एवं मानबर्दु विजय पाठक (सह-उधारकर्ता), स्वर्गीय देव राज पाठक का बेटा और कानूनी उत्तराधिकारी) 3. रेखा 4. लारडमस इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	संपत्ति संख्या 1 प्लॉट नंबर 57 और 59, जिसका माप पूर्व में 68 फीट, पश्चिम में 66 फीट 5 इंच, उत्तर में 80 फीट, दक्षिण में 80 फीट है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5380 वर्ग मीटर यानी 500 वर्ग मीटर है, भूमि बेअरिंग खसरा नंबर 296 पर स्थित है, जो द्वारिका विहार में स्थित है, गांव ज्वालानगर (नगर पालिका समिति हजारा की सीमाओं से बाहर), परगना ज्वालानगर, तहसील और जिला हफिरा, उत्तराखंड। संपत्ति संख्या 2 प्लॉट नंबर 58 के सभी भाग और खंड, (जिसका माप पूर्व में 74 फीट 8 इंच, पश्चिम में 68 फीट, उत्तर में 6 फीट, दक्षिण में 30 फीट 4 इंच है, जिसका कुल क्षेत्र 1369.13 वर्ग फीट यानी 127.24 वर्ग मीटर है भूमि बेअरिंग खसरा नंबर 296 पर, जो द्वारिका विहार में स्थित है, गांव ज्वालानगर, सीमा नगर पालिका समिति हजारा से बाहर है, परगना ज्वालानगर, तहसील और जिला हफिरा, परगना ज्वालानगर, तहसील और जिला हफिरा-249407, उत्तराखंड।	05.05.2024	रु. 15,97,712.03/- (रुपए पंद्रह लाख सत्तावे हजार सात सौ बारह और तीन पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 के विरुद्ध) और रु. 23,74,810.76/- (रुपए सैंकड़ लाख चौदह हजार आठ सौ दस और छह पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 2 के विरुद्ध) और रु. 66,79,086.69/- (रुपए छियातर लाख ज्वासी हजार छियासी और उन्धत्तर पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 3 के विरुद्ध) कुल बकाया राशि रु. 1,06,51,609.48/- (रुपए एक कोड़ छह लाख इयावन हजार छह सौ नौ और अठ्ठातीस पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1, 2 और 3 के विरुद्ध) 15.07.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाये में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस ब्याच में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाये वाले (लौ) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट बनावटी बकाया नही है।

उधार लेने वाले(लौ) की ओर से ऋण बनावटी का पुनर्गुणाशन में लगातार धुक होने के कारण उधार लेने वाले(लौ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादितपर परिसंशोधित (स्तंभ सी में नारीक के अनुसार) के रूप में वनीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपयुक्त को दुर्भाग्य रहते हुए कंपनी एलट्राडास उधार लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लौ) का आह्वान करती है कि, वे अपने सूचना के प्रकाशन होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन व्याज, लाभां, तथा शुल्कों सहित उजर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति करने के लिए / उनके पूरे दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ डी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिहीन कर देने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरकारी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, “कर्जदार सार्वजनिक नीलामी कक्षा, कोर्टेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक विनिदा या किसी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्थियों की विधि के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्वोरिट्राइ इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए सभी खर्चों, लाताओं और प्रभारों के बकाया संपूर्ण बकाया देव राशि और कर सकता है, इसके अलावा यह धारा के तहत कि उचित नियोजित विधि रूप से निर्धारित समयाधि के अंदर सुरक्षित आस्थि का मोशन करने में कर्जदार फिल हूटे पर कर्जदार संपत्ति का मोशन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता”

सरकारी अधिनियम की उधारा 13(2) के प्रावधान के संदंर्भ में, आप इस प्रकार विक्री, पट्टे के माध्यम से अस्थिदा नोटिस में उल्लिखित अनाति सुरक्षित संपत्ति के से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित संपत्ति के विना स्वयंमतिर करने से प्रतिबंधित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी

कृते एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

स्थान : हफिरा

एअरसीआईईल-2025-007 (“एअरसीआईईल”) के दृष्ट

मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड

(सीआईएन: U67190HR1994PLC076366)

पंजीकृत कार्यालय: ए-852-ए, बेसमेंट, सुशांत लोक, फेज- I, गुरुग्राम, गुड़गांव,
हरियाणा- 122002

क्षेत्रीय कार्यालय: मास्टर चैम्बर्स, एससीओ 19, फिरोज गाँधी मार्केट, लुधियाना, पंजाब-141001

ई-मेल: secretarial@mastertrust.co.in, फोन: 0161-5043500

वेबसाइट: www.mastertrust.co.in

30.06.2026 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(रुपि लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समेकित				एकल			
		तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त		तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
		30/06/2026	30/06/2025	31/03/2026	31/03/2026	30/06/2026	30/06/2025	31/03/2026	31/03/2026
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	1444.3	1207.1	1725.3	5352.8	1413.4	1207.1	1725.3	5352.8
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर और विशिष्ट मदों से पूर्व)	381.9	286.4	395.6	1403.4	375.9	286.4	395.6	1403.4
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर और विशिष्ट मदों के बाद)	285.9	216.4	288.6	1046.4	281.4	216.4	288.6	1046.4
4	अवधि के लिए कुल समग्र आय (लाभ और अन्य समग्र आय शामिल)	307.4	240.7	279.0	1052.7	305.1	240.7	279.0	1052.7
5	इक्विटी शेयर पूंजी	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
6	प्रति शेयर रजन (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक) नैसर्गिक जायल्यूटेड	48.5	36.7	48.9	177.4	47.7	36.7	48.9	177.4
		48.5	36.7	48.9	177.4	47.7	36.7	48.9	177.4

नोट:

(i) ऊपर सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताओं) नियमावली, 2015 के विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए तिमाही अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.mastertrust.co.in पर उपलब्ध है।

*31.03.2026, 30.06.2025 को समाप्त तिमाही और 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक कॉलम में उल्लिखित परिणाम एकल आधार पर हैं, क्योंकि 07 मई, 2026 से डेट-लिस्टेड कंपनी बनने के बाद ही समेकन लागू होगा।

क्षिप्ते मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता./—
मोहित वर्मा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: लुधियाना
दिनांक: 04.08.2026

सार्वजनिक सूचना

जकार्क योची येथे यागीत मामला, अर्थात मध्यस्था-और सुलून अधिनियम, १९९६ की धारा ३ के तहत मध्यस्था याचिका, माननीय वॉन्हे उच्च न्यायालय को समक्ष लवित है (साम्यः अमित बोरकर जे.)

वॉन्हे उच्च न्यायालय में साधारण मुद्दा दीनानी केओवाका

याचिका मध्यस्था याचिका संख्या ४१३ रीट २०२८

आईआईएफएल फार्नेस् रिपिटिड

बागम

प्रतिवादगीम

४. निम्ना पंटाइजाजेउ

अपीन बंसल

लोरा डेल

५. निम्ना पंटाइजाजेउ

आपः एल्लुडीही-१६१, शरीगा बाग, दिल्ली, पोस्ट ऑफिस-११००८८ ईमेल आईई-mahine@practisingdelhi@yahoo.com

२ गरीब बंसल (रिपिट) निम्ना पंटाइजाजेउ के स्पाणी

आपः एल्लुडीही पीसी १६१, शाहीबाग बाग, दिल्ली, उत्तरादी दिल्ली-११००८८

३ श्रीमती पूजा देवी (सह-कर्जदारी)

आपः एल्लुडीही पीसी १६१, शाहीबाग बाग, दिल्ली, उत्तरादी दिल्ली-११००८८

प्रतिवादगीम

और जबकि, तत्र भवान ने आदेश दिनांकित १५-०७-२०२६ द्वारा, प्रभावदी (प्रतिवादगीम) को वैकीयक सेवा के माध्यम से सूचना प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, प्रभावदी (प्रतिवादगीम) १, २ और ३ को एतद्वारा सूचित किया जाता है और उससे इस पर आधन देने के लिए कहा जाता है तथा उपरोक्त प्राधान के वास्तव करने और उपर्युक्त माध्यम पर **माननीय न्यायमुर्ति अमित बोरकर** जे. के समक्ष १२ अप्रैल, २०२६ को और / या उसके बाद भी गांग मालता ऐस की माननीय की सुनावदी कर रहे माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीकद हो, जो था व्यक्तित्व रूप से या किसी अधिकृत, जो हूत प्राप्त, उच्च न्यायालय, किन्तु मैं अपनात करने का अधिकारवाक के, के मामल से उपस्थित होना /शे होना नहीं करी की जाही है।

अनुमति हावे कि फिर आपकी ओर से आप चाहते हैं कि प्रभावदी से अपने आवदे दावा प्रगृहित और कुरूपिता हावे कोई दस्तावेज के अधिवक्ता के माध्यम से पेरा नली होते हैं, तो आप और कोई सूचना रिपोर्ट किया, उपरोक्त मामले की सुनावदी और निर्णय आपकी अनुपरिक्षित में किया जा सकता है।


आदेश दिनांकित १५-०७-२०२६ के सिलसिले में अनुपालन।

दिनांक : ०६-०८-२०२६

माँ देवी

याचिकाकर्ता

आईआईएफएल फार्नेस् रिपिटिड



thoughtfull regeneration

सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्रथम तल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बलार्ड ईस्ट, मुंबई-400038

कब्जा नोटिस

(अच्छल संपत्ति हेतु)

परिशिष्ट IV

नियम 8(1) के साथ पठित

जबकि, सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-214 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता से कार्यरत) के अधोस्तम्भाधी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिष्ठित हित प्रदान अभियान, 2002 (2002 के आ 54) के तहत और प्रतिभूति लिख (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12), 13(2) के तहत प्रशस्त शक्तियों का प्रयोग कर नोटिस में उल्लिखित बकाया देय राशि उक्त नोटिस प्रारंभ की तारीख से 60 दिनों के अंदर अदा करने के लिए कहा। इसके अलावा, **सेव फाइनेयल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने सेव फाइनेयल सर्विसेज प. लि.** और सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत एसाइनमेंट करार दिनांकित 10.02.2026 द्वारा अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ उपरोक्त ऋण खाते की पूर्ण बकाया ऋण राशि के सभी अधिकार, हक और ब्याज को सफरसाी अधिनियम 2002 की धारा 5 के प्राधान्यों के तहत सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में सुपुर्द कर दिया है।

कर्जदारों के राशि चुकाने में विफल रहने पर एतद्वारा कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोस्तम्भाधी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऊपर वर्णित संपत्ति का ऊपर "कब्जे की तारीख" में उल्लिखित तारीख को **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। बंधक संपत्ति के साथ पाठियों, सीएफएमएआरसी द्वारा लिए गए कब्जे का विवरण नीचे दिया गया है:-

ग्राहक (कर्जदार(ओं) / सह-कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) / भागीदारी / बंधक(ओं) के नाम	मांग नोटिस की तारीख और राशि र. में	कब्जे की तारीख
रिजुवान (कर्जदार), राविया (सह-कर्जदार), ऋण राशि नं.: LOANARUD0007103	मांग नोटिस की तारीख 07.04.2026, र. 3,68,319.00/- (रुपये आठ लाख अड़सठ हजार तीन सौ उन्नीस मात्र) दिनांक 26.03.2026 तक	30-07-2026
बंजक संपत्ति: संपत्ति खसरा नंबर 113 मिन, माग एरिया पूर्व और पश्चिम में 20 फीट, उत्तर और दक्षिण में 20 फीट कुल क्षेत्रफल 400 मी. की पट्टी जमीन 37.17 वर्ग मीटर, गाँव नानापुर छोटी तहसील रामनगर जिला नैनीताल, उत्तराखंड 244715 के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ: पूर्व: डिकेता की भूमि, पश्चिम: शानापुर की भूमि, उत्तर: डिकेता की भूमि, दक्षिण: रामनगर-पैरुमाता रामा रोड। 12.00 मीटर चौड़ा	मांग नोटिस की तारीख 21.04.2026, र. 8,87,746/- (रुपये आठ लाख सत्तासी हजार सत्ता सौ फिचालीस मात्र) दिनांक 26.03.2026 तक	30-07-2026
दीदीक बड़ई (कर्जदार), गोविंद बड़ई (सह-कर्जदार), दीदीक बड़ई (सह-कर्जदार), ऋण राशि नं.: LOANARUD0002808		

बंजक संपत्ति: संपत्ति खता नं. 00362 (फसली वर्ष 1422-1427) खसरा नं. 352 मिन क्षेत्रफल 17.5 X 83 वर्ग फीट या 134.99 वर्ग मीटर, गाँव विजय नगर तहसील रुद्रपुर जिला उत्तरम सिंह नगर, उत्तराखंड 263153 के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ: पूर्व: कार्तिक देव नगर का प्लॉट, पश्चिम: विष्व नाथ गायिका का प्लॉट, उत्तर: 3 मीटर चौड़ी आरसीसी सड़क, दक्षिण: ब्रुजेरा कुमार का प्लॉट

विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित कर्जदारों और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से कांफे लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन इस नोटिस में उल्लिखित राशि और इस पर उपरोक्त विवरण में प्रदर्शित बकाया राशि की तारीख की स्थिति के अलावे ही दिन से प्रमाणी, पूर्व पुनर्मुनातन और/या सरूली की तारीख तक अनुबंधित दर पर ब्याज, अकार्षिक ब्याज, गतान्त और शुल्कों आदि के लिए सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। साथ ही, कर्जदार का ध्यान प्रचाल्य परिसंपत्तियों को मुक्त करार प्राप्त करने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (b) के प्राधान्यों और आकृत किया जाता है।

ऊपर ब्याज ध्यान दें कि संपत्तियों का विवरण ऊपर वर्णयार्जित है।

दिनांक: 06.04.2026

स्थान: उत्तराखंड

प्राधिकृत अधिकारी, सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

(सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-214 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता से कार्यरत)



pnb Housing
Finance Limited

Ghar Ki Baat

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

फोन : 011-66030500, ईमेल : investor.services@pnbhousing.com, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

CIN NO. L65922DL1988PLC033856

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित अंतरिम वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	30.06.2026 को समाप्त तिमाही (अलेखापरिहित)	31.03.2026 को समाप्त वार्षिक (अंकित)	30.06.2025 को समाप्त तिमाही (अलेखापरिहित)
1.	संचालनों से कुल आय	2,263.44	8,504.52	2,076.11
2.	अवधि के लिए निवल लाभ (कर पूर्व, असाधारण और विशिष्ट मदों)	718.44	2,970.61	687.92
3.	अवधि के लिए निवल लाभ कर पूर्व (असाधारण और विशिष्ट मदों के बाद)	718.44	2,970.61	687.92
4.	अवधि के लिए निवल लाभ कर उपरान्त (असाधारण और विशिष्ट मदों के बाद)	557.34	2,291.24	533.50
5.	अवधि के लिये कुल समग्र आय (समग्र लाभ/(हानि) शामिल अवधि के लिए कर उपरान्त और कर उपरान्त अन्य समग्र आय)	564.19	2,437.75	620.29
6.	इक्विटी अंश पूंजी	260.59	260.55	260.13
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अलावा)	19532.91	18,958.58	17,237.83
8.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	6,507.49	6,504.88	6,479.71
9.	कुल मूल्य	19793.50	19,219.13	17,497.96
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी / बकाया ऋण	73699.48	71,198.65	64,843.72
11.	बकाया प्रतिदेय योग्य वरीयता शेयर	-	-	-
12.	ऋण इक्विटी अनुपात	3.72	3.70	3.71
13.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक ₹10/-)*			
	(1) मूलभूत (₹)	21.39	88.01	20.52
	(2) मिश्रित (₹)	21.33	87.80	20.45
14.	पूंजी ऋणमुक्ति संरक्षित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	ऋणपत्र ऋणमुक्ति संरक्षित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	ऋण सेवा आवृत अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	व्याज सेवा आवृत अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

[illegible]

पाबलिङ हाउसिंग सोसललिटीस लिमिटेड को स्ट्रेटलान्डन वित्तीय पारिणीत से संबधित प्रमुख आकड्डा इस प्रकार है:-				
(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	विवरण	30.06.2026 को समाप्त तिमाही (अलेखापरिशित)	31.03.2026 को समाप्त वार्षिक (अलेखापरिशित)	30.06.2025 को समाप्त तिमाही (अलेखापरिशित)
1.	संचालनों से कुल आय	2252.50	8,511.22	2,063.88
2.	कर पूर्व लाभ	714.59	3,003.80	685.53
3.	कर व्यय	160.09	675.92	153.80
4.	कर उपरांत निवल लाभ	554.50	2,327.88	531.73
5.	अवधि के लिये समग्र आय (समग्र लाभ/(हानि) शामिल अवधि के लिए कर उपरांत और कर उपरांत अन्य समग्र आय)	561.71	2,473.85	618.36

टिप्पणियाँ:

- 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के उपर्युक्त परिणामों की बोर्ड की अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षा और सिफारिश जाती है और बाद में 04 अगस्त, 2026 को आयोजित हुई बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान, कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा स्टॉक विकल्पों/प्रतिबंधित स्टॉक इकाइयों के प्रयोग के अनुसार ₹ 10 के 40,345 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।
- उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 विनियमन 33 और 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए स्टॉक एक्सचेंज अलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बीएसई (www.bseindia.com), एनएसई (www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.pnbhousing.com) पर उपलब्ध है जसे नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।
- सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 विनियमन 52(4) में निर्दिष्ट अन्य लाइन मदों के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रासंगिक प्रकटीकरण किए गए हैं और बीएसई (www.bseindia.com), एनएसई (www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.pnbhousing.com) पर उपलब्ध है।
- कंपनी उन सक्षम निवेशक पहले में भाग ले रही है जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्रधिकरण (आईडीपीएफ प्राधिकरण), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। श्रेयधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) से संपर्क करके अपने केवाईसी विवरण जैसे पैन, पता, बैंक विवरण और नामांकन को जल्द से जल्द अपडेट करें।
- श्रेयधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी अप्राप्त डिबिट्ड, यदि कोई हो, कंपनी से पंजीकृत कार्यालय या ईमेल investor.services@pnbhousing.com पर दायर करें। यदि डिबिट्ड लगातार (7) वर्षों तक न भुनाया गया और कंपनी के अवैतनिक डिबिट्ड खातों में पड़ा रहा, तो इसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ('आईडीपीएफ') में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- जमा धारकों से अनुरोध है कि वे अपनी अप्राप्त/अदायगी न किए गए जमा और उस पर ब्याज का दावा न करें, यदि कोई हो, तो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या investor.services@pnbhousing.com पर ईमेल करें। यदि अप्राप्त जमा और उस पर ब्याज लगातार (7) वर्षों तक न भुनाया नहीं जाता है और कंपनी के पास पड़े रहते हैं तो उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ('आईडीपीएफ') में स्थानांतरित किया जा सकता है।

प्रति एवं निदेशक मंडल की ओर से

अजय कुमार शुक्ला
प्रबंध निदेशक और सीओओ
डीआईएफ: 11358498

WE ACCEPT PUBLIC DEPOSITS AT ATTRACTIVE RATES OF INTEREST | CALL : 1800-120-8860 | Website: www.pnbhousing.com